

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट

आजादी का अमृत महोत्सव



Moneywise. Be wise.



## प्रमुख खबरें

- पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की मासिक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2022 में तेल की मांग में 3.1 मिलियन बैरल प्रति दिन या 3.2% की वृद्धि होगी, जो पिछले पूर्वानुमान से प्रति दिन 260,000 मिलियन बैरल कम है।
- सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में चीन में तांबे का आयात 9.3% बढ़कर 463,693.8 टन हो गया, जबकि पिछले साल समान अवधि में 424,280.3 टन हुआ था।
- व्यापार सूत्रों के अनुसार भारत के पूर्वी क्षेत्रों में धान की बुवाई गतिविधियों को प्रभावित करने वाले मानसूनी वर्षा की गंभीर कमी के कारण फसल वर्ष 2022-23 (जुलाई-जून) में देश में चावल उत्पादन पिछले साल के रिकॉर्ड से कम से कम 10 मिलियन टन कम होकर 129 मीट्रिक टन होने का अनुमान है।
- सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी सोमो के आंकड़ों के अनुसार इराक ने जुलाई में 4.584 मिलियन बैरल प्रति दिन तेल का उत्पादन किया है, जो जून से 69,000 बैरल प्रति दिन अधिक है। इराक का उत्पादन जुलाई के लिए लिए ओपेक+ कोटा 4,580 मिलियन बैरल प्रति

दिन से थोड़ा अधिक हुआ है।

- कमोडिटी विश्लेषक केंप्लर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक चीन ने जुलाई में रूस के कुल 4.47 मिलियन बैरल प्रति दिन के निर्यात में से 1.85 मिलियन बैरल प्रति दिन का आयात किया है।
- अमेरिकी श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक साल पहले की तुलना में 8.5% बढ़ा, जो जून में चार दशकों में उच्चतम स्तर 9.1% कम हुआ है।
- भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों के केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक इस महीने की शुरुआत में कम होकर 26.6 मिलियन टन रह गया, जो 1 अगस्त 2008 के बाद का सबसे कम है।
- ग्लेनकोर के यूरोपीय परिचालन में रिफाइंड जिंक का उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष 47,500 टन गिरकर 2022 के पहले छह महीनों में 350,900 टन रह गया।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	05.08.22	11.08.22	बदलाव (%)
मक्का	2,355.00	2,453.00	4.16%
रिफाइंड कैस्टर ऑयल	1,452.00	1,476.50	1.69%
कैस्टर सीड न्यू	7,194.00	7,298.00	1.45%
धान बासमती	4,308.00	4,355.00	1.09%
कपास न्यू	2,139.00	2,151.50	0.58%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	05.08.22	11.08.22	बदलाव (%)
हल्दी	7,368.00	6,874.00	-6.70%
ग्वारगम 5 एमटी	8,739.00	8,236.00	-5.76%
कॉटनऑयलसीडकेक	2,669.00	2,573.00	-3.60%
ग्वारसीड	4,851.00	4,703.00	-3.05%
ग्वारेक्स	6,082.00	5,923.00	-2.61%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	05.08.22	11.08.22	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	642.30	698.50	8.75%
कच्चा तेल	7086.00	7526.00	6.21%
जिंक	309.85	327.30	5.63%
तांबा	655.85	681.10	3.85%
कॉटन	47310.00	49060.00	3.70%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	05.08.22	11.08.22	बदलाव (%)
रबर	17200.00	16900.00	-1.74%
मेंथा ऑयल	988.10	987.90	-0.02%

## साप्ताहिक समीक्षा

डॉलर इंडेक्स में गिरावट के बीच निचले स्तर पर खरीददारी के कारण सीआरबी इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई और यह 310 के करीब बंद हुआ। अमेरिकी सीपीआई आंकड़ों में कमी, जिसने सितंबर के महीने में ब्याज दर में केवल 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि का संकेत दिया, के कारण बेस मेटल की कीमतों में तेजी बरकरार रही। मांग में बढ़ोतरी और डॉलर में गिरावट के कारण तांबे की कीमतें गुरुवार को 5 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। दुनिया भर में फ़ैक्ट्री गतिविधि में गिरावट के बावजूद औद्योगिक धातु की कीमतों में तेजी आई है। चीन में उत्पादक मूल्य मुद्रास्फीति जुलाई के दौरान कम हो गई, जबकि मैनुफैक्चरिंग गतिविधि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कम हो गई। यूरोप में अत्यधिक ऊर्जा संकट के कारण एल्युमीनियम का उत्पादन बंद होने से एल्युमीनियम की कीमतें बढ़ रही हैं। तीन महीने के एल्युमीनियम कॉन्ट्रैक्ट पर नकदी के लिए प्रीमियम पिछले सप्ताह की शुरुआत में शून्य के स्तर की तुलना में लगभग 9 डॉलर प्रति टन पर कारोबार कर रहा है। रूस से सुचारू आपूर्ति के बीच भंडार में वृद्धि के बावजूद एनर्जी काउंटर में निचले स्तर से उछाल दर्ज की गई। 5 अगस्त को समाप्त सप्ताह में अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में 5.5 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई है, जो कि 73,000 बैरल की संभावित वृद्धि से अधिक है। पिछले सत्र में 1 डॉलर से अधिक की बढ़त के बाद गुरुवार को एशिया में तेल की कीमतों में गिरावट हुई क्योंकि आपूर्ति में व्यवधान की चिंता कम हो गई और बाजारों को ईंधन की मांग में सुधार के सबूत मिले। यूरोप में गैस की उच्च कीमतों के कारण नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी सीपीआई आंकड़ों में कमी के बाद डॉलर इंडेक्स में गिरावट से सर्राफा की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। मुद्रा बाजार के व्यापारियों ने 21 सितंबर को फेडरल रिजर्व की अगली दर संशोधन बैठक में दरों में तुरंत 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी संभावना व्यक्त की इससे पहले, दरों में 75 बेसिस प्वाइंट या तीन तिमाही प्रतिशत प्वाइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद व्यक्त की जा रही थी।

कृषि कमोडिटीज में कटाई मिलों की ओर से निरंतर मांग के बीच कॉटन की कीमतों में चमक जारी रही। गिनर घरेलू बाजार में कीमतों में कटौती कर कपास नहीं बेच रहे हैं, जबकि मिलों के पास शेष स्टॉक भी पिछले साल की तुलना में कम है। अधिक उत्पादन की उम्मीद से ग्वार समूह की कीमतों में गिरावट जारी रही। मुख्य ग्वार उत्पादक क्षेत्रों में अब तक अच्छी बारिश हुई है। 01 अगस्त तक राजस्थान में ग्वारसीड का उत्पादन क्षेत्र पिछले वर्ष के 15.18 लाख हेक्टेयर की तुलना में 117% बढ़कर 29.39 लाख हेक्टेयर हो गया है। अच्छी निर्यात मांग और कम कैरी-ओवर स्टॉक के कारण अरंडी वायदा की कीमतों निचले स्तर से बढ़ोतरी हुई। हल्दी की स्थानीय मांग कम है और यह बताया गया है कि दक्षिण भारत में इस मौसम में हल्दी की अच्छी बुवाई हुई है, जिसके बाद इसकी कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। दक्षिण भारत के खरीदारों के साथ-साथ स्थानीय प्रोसेसरस ने भी फिलहाल अपनी खरीदारी कम कर दी है, इसलिए धनिया की कीमतों में नरमी के साथ कारोबार हुआ।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	05.08.22	10.08.22	(%)
जौ	जयपुर	3,104.50	3,094.60	-0.32
चना	दिल्ली	4,960.10	5,000.00	0.80
धनिया	कोटा	11,949.45	11,938.45	-0.09
कूड पॉम ऑयल	कांडला	1,140.70	1,147.10	0.56
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,290.50	1,289.80	-0.05
ग्वारसीड	जोधपुर	4,931.70	4,793.10	-2.81
ग्वारगम	जोधपुर	8,949.60	8,504.95	-4.97
जीरा	ऊंझा	23,926.75	23,715.05	-0.88
सरसों	जयपुर	6,817.75	6,914.55	1.42
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1,240.00	1,275.00	2.82
सोयाबीन	इंदौर	6,359.10	6,428.40	1.09
हल्दी	निजामाबाद	7,693.45	7,495.95	-2.57
गेहूं	दिल्ली	2,520.00	2,491.25	-1.14
कॉटन	कड़ी	44,460.05	43,025.85	-3.23
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2,792.45	2,842.30	1.79

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	05.08.22	11.08.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2,416.00	2,520.50	4.33
तांबा	LME	नकद	7,870.50	8,173.00	3.84
लेड	LME	नकद	2,070.00	2,199.00	6.23
निकल	LME	नकद	22,216.00	23,659.00	6.50
जिंक	LME	नकद	3,488.50	3,686.50	5.68
सोना	COMEX	अक्टूबर	1,791.20	1,792.10	0.05
चांदी	COMEX	सितम्बर	19.84	20.35	2.57
लाइट कूड	NYMEX	सितम्बर	89.01	94.34	5.99
नेचुरल गैस	NYMEX	सितम्बर	8.06	8.870	10.05

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	05.08.22	11.08.22	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	सितम्बर	14.63	15.20	3.90
सोया तेल	CBOT	दिसम्बर	65.00	69.30	6.62
कॉटन	ICE	अक्टूबर	101.68	110.44	8.62
सीपीओ	BMD	अक्टूबर	3,878.00	4,264.00	9.95

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	04.08.22 क्वांटिटी	11.08.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	30	-	-30
जौ	मी.टन	210	20	-190
कैस्टर सीड	मी.टन	34,095	29,669	-4426
धनिया	मी.टन	10,222	9,636	-586
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	21,365	17,975	-3390
ग्वारगम	मी.टन	12,940	12,419	-521
ग्वारसीड	मी.टन	18,574	17,552	-1022
जीरा	मी.टन	5,069	5,949	880
मक्का	मी.टन	0	0	0
सोयाबीन	मी.टन	144	139	-5
हल्दी	मी.टन	3,576	3,543	-33

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	05.08.22 क्वांटिटी	11.08.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	3,481.72	3,379.16	-103
तांबा	मी.टन	38,48,833.00	39,72,227.00	123394
सोना	किग्रा	358.00	349.00	-9
सोना गिनी	किग्रा	13,888.00	13,888.00	0
सोना मिनी	किग्रा	1,16,100.00	1,11,800.00	-4300
लेड	किग्रा	738.51	682.70	-56
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	1,22,098.13	1,36,578.62	14480
चांदी एम	किग्रा	24,672.58	24,672.58	0
जिंक	मी.टन	1,927.73	1,703.48	-224

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 05.08.22	स्टॉक की स्थिति 11.08.22	अंतर
एल्युमीनियम	2,90,675.00	2,82,700.00	-7,975
तांबा	1,29,575	1,30,250	675
निकल	57,900	56,244	-1,656
लेड	38,875	38,800	-75
जिंक	70,000	74,100	4,100



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद * भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	सितम्बर	24030.00	11.05.22	तेजी	21200.00	23850.00	-	23800.00
NCDEX	हल्दी	सितम्बर	7158.00	07.08.22	मंदी	7464.00	-	7470.00	7500.00
NCDEX	ग्वारसीड	सितम्बर	4745.00	30.05.22	मंदी	6000.00	-	5170.00	5200.00
NCDEX	कैस्टरसीड	सितम्बर	7368.00	14.07.22	तेजी	7270.00	7230.00	-	7200.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	सितम्बर	2573.00	04.04.22	मंदी	3200.00	-	2730.00	2750.00
MCX	कॉटन	अगस्त	49060.00	07.08.22	तेजी	46820.00	47500.00	-	47300.00
MCX	मंथा ऑयल	अगस्त	987.90	23.05.22	मंदी	1080.00	-	1024.00	1030.00
MCX	बुलडेक्स	अगस्त	14480.00	28.07.22	तेजी	14000.00	14200.00	-	14150.00
MCX	चांदी	सितम्बर	58377.00	28.07.22	तेजी	56000.00	56700.00	-	56500.00
MCX	सोना	अक्टूबर	52336.00	28.07.22	तेजी	51000.00	51200.00	-	51000.00
MCX	मेटलडेक्स	अगस्त	17730.00	23.06.22	साइडवेज	1796.30	17200.00	18200.00	-
MCX	तांबा	अगस्त	681.10	27.07.22	तेजी	770.00	655.00	-	650.00
<b>MCX</b>	<b>लेड</b>	<b>अगस्त</b>	<b>184.15</b>	<b>08.08.22</b>	<b>तेजी</b>	<b>181.00</b>	<b>179.50</b>	-	<b>179.00</b>
MCX	जिंक	अगस्त	327.30	27.07.22	तेजी	275.00	302.00	-	300.00
MCX	एल्युमिनियम	अगस्त	218.15	27.07.22	तेजी	208.00	209.00	-	208.00
MCX	कच्चा तेल	अगस्त	7526.00	23.06.22	मंदी	8222.00	-	8100.00	8150.00
MCX	नेचुरल गैस	अगस्त	698.50	15.07.22	तेजी	520.00	645.00	-	640.00

\*11/08/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पकड़ती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### कच्चा तेल ( अगस्त ) एमसीएक्स



### कच्चा तेल ( अगस्त ) एमसीएक्स

एमसीएक्स में कच्चा तेल ( अगस्त ) कॉन्ट्रैक्ट 11 अगस्त 2022 को 7526.00 रु पर बंद हुआ। 14 जून 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 9227.00 रु के उच्च स्तर पर था। 05 अगस्त 2022 को 6944.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 47.55 है। 7150.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 7900.00 रु के टारगेट के लिए 7400.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### कॉटन ऑयलसीडकेक ( सितम्बर ) एनसीडीईएक्स



### कॉटन ऑयलसीडकेक ( सितम्बर ) एनसीडीईएक्स

एनसीडीईएक्स में कॉटनऑयलसीडकेक ( सितम्बर ) कॉन्ट्रैक्ट 11 अगस्त 2022 को 2683.00 रु पर बंद हुआ। 10 जून 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 2995.00 रु के उच्च स्तर पर था जबकि 03 अगस्त 2022 को 2473.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 49.789 है। 2780.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 2540.00 रु के टारगेट के लिए 2700.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### एल्युमिनियम ( अगस्त ) एमसीएक्स



### एल्युमिनियम ( अगस्त ) एमसीएक्स

एमसीएक्स में एल्युमिनियम ( अगस्त ) कॉन्ट्रैक्ट 11 अगस्त 2022 को 218.15 रु पर बंद हुआ। 12 अगस्त 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 219.60 रु के उच्च स्तर पर था। 15 जुलाई 2022 को 203.10 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 59.169 है। 211.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 223.00 रु के टारगेट के लिए 215.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

हल्दी (सितम्बर) की कीमतों के नमी के रुझान के साथ 6800-7650 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। पिछले हफ्ते उच्च स्तर पर बिकवाली के दबाव और बेहतर बुवाई की रिपोर्ट के कारण कीमतें 10 महीने के गिरावट दर्ज की गईं आंध्र प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार, 27 जुलाई तक राज्य में हल्दी की बुवाई की पिछले वर्ष की समान अवधि के 7,764 हेक्टेयर की तुलना में लगभग 7,958 हेक्टेयर में हुई है। पर्याप्त स्टॉक और अच्छी बुवाई रिपोर्ट के कारण हल्दी की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। व्यापार विश्लेषकों के अनुसार, हल्दी की स्थानीय मांग कम है और यह बताया गया है कि दक्षिण भारत में इस सीजन में हल्दी की अच्छी बुवाई हुई है, जिसके बाद इसकी कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। प्रमुख खपत केंद्रों के खरीदार दूर रह रहे हैं। वे अपनी अल्पकालिक मांग के अनुसार हल्दी खरीद रहे हैं। सितंबर के बाद नई मांग आएगी। पिछले साल किसानों को अधिक कीमत मिलने के कारण इस मौसम में दक्षिण भारत में अच्छी बुवाई की खबर है।

जीरा वायदा (सितम्बर) की कीमतों में पिछले सप्ताह बढ़ोतरी हुई क्योंकि मंडियों में कम आवक और किसानों एवं स्टॉकिस्टों द्वारा स्टॉक रोक कर रखने से जीरा की कम आपूर्ति के कीमतों को मदद मिल रही है। कीमतों को सपोर्ट 23500 के स्तर पर है जबकि रजिस्ट्रेस 25700 के स्तर पर है। अखिल भारतीय स्तर पर जीरा की मंडी आवक पिछले महीने की तुलना में 10% कम हुई। व्यापार विश्लेषकों के अनुसार, खरीदार उच्च स्तर पर अपनी खरीदारी करने के लिए अनिच्छुक है। लेकिन कीमतों में मौजूदा स्तर से कोई बड़ी गिरावट देखने की संभावना नहीं है क्योंकि जीरा ने निर्यात के मोर्चे पर अच्छी मांग को आकर्षित किया है। वर्तमान में, कम उत्पादन अनुमान और व्यापारियों के पास कम स्टॉक पर कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 78% अधिक हैं। गुजरात सरकार द्वारा जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार कम बुवाई के कारण राज्य में जीरा उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 45% गिरकर 2.22 लाख टन होने की संभावना है।

मिले-जुले फंडामेंटल के कारण धनिया वायदा (सितम्बर) की कीमतें 10800-12200 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। विदेशों में कमजोर मांग होने के साथ-साथ स्थानीय मांग के भी कमजोर रहने हाजिर बाजारों में कीमतों में गिरावट हो सकती है, जबकि सीमित आपूर्ति के बीच कम उत्पादन रिपोर्ट से कीमतों को मदद मिल सकती है। दक्षिण भारत के खरीदारों के साथ-साथ स्थानीय प्रोसेसरों ने भी फिलहाल अपनी खरीदारी कम कर दी है, इसलिए धनिया की कीमतें स्थिर हैं। खरीदार इसकी कीमतों में अधिक गिरावट की आशंका में बाजार से दूरी बनाए हुए है। बाजार सूत्रों के मुताबिक, आयातित धनिया का स्टॉक अब कम है और घरेलू धनिया की कीमतों में तेजी आई है। वर्तमान में कीमतें कम निर्यात के बावजूद कीमतें वर्ष-दर-वर्ष लगभग 56% अधिक हैं। भारत ने पिछले वर्ष के 2.4 हजार टन की तुलना में वर्ष 2022 में मई तक लगभग 11.5 हजार टन धनिया का आयात किया है।

### अन्य कमोडिटीज

हरियाणा और पंजाब में कीटों के हमले से फसलों को हुए नुकसान की खबरों के बाद सटोरियों की खरीदारी के कारण कॉटन की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। एमसीएक्स पर कॉटन वायदा की कीमतें शुक्रवार को 4% की उछाल के साथ साप्ताहिक उच्च स्तर 49250 पर पहुंच गई। अमेरिका में प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में मौजूदा मौसम की चिंताओं के बीच डॉलर सूचकांक में कमजोरी के कारण आईसीई में कॉटन वायदा कीमतों में उछाल से भी घरेलू कीमतों को मदद मिली। सूती धागे के सुस्त निर्यात और कटाई मिलों द्वारा आवश्यकतानुसार खरीदारी के कारण कपास की कीमतों में बहुत सीमित रह सकती है। बढ़ती लागत के कारण कटाई मिलों ने अपनी परिचालन क्षमता में कटौती की है। कपास का रकबा बढ़ने और फसल की बेहतर संभावनाओं से बाजार का सेंटीमेंट प्रभावित होगा 5 अगस्त तक कपास के तहत कुल बुआई लगभग 121 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले वर्ष के 113 लाख हेक्टेयर की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 5% अधिक है। कीमतों को 50100 के स्तर के करीब मजबूत रजिस्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है।

सुस्त घरेलू मांग के कारण कॉटनसीडऑयल कैंक (सितंबर) वायदा कीमतों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ और उन्हें 2480 के स्तर के करीब समर्थन मिला। कीमतें 2768 के साप्ताहिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद शुक्रवार को 2684 पर आ गई। फसल की बेहतर स्थिति और कपास के बढ़ते रकबे की खबरों ने कीमतों पर दबाव डाला। कीमतों में आने वाले हफ्तों में कीमतों में 2800 के स्तर पर रजिस्ट्रेस के साथ 2550 तक गिरावट होने की संभावना है।

स्थानीय बाजार में कमजोर खरीदारी के कारण मंथा तेल की कीमतों पर दबाव बना रहा क्योंकि विक्रेता कीमतों में अधिक गिरावट के डर से सक्रिय थे। प्रचुर मात्रा में स्टॉक और सीमित औद्योगिक खरीदारी के कारण आने वाले हफ्तों में कीमतों में गिरावट जारी रह सकती है। कीमतों को 930-950 के करीब सपोर्ट मिल सकता है और वर्ष 2022 में कम उत्पादन अनुमानों के कारण नई खरीदारी देखने को मिल सकती है।

आगामी सीजन के लिए बेहतर उत्पादन अनुमान के कारण एनसीडीईएक्स पर ग्वारसीड वायदा (सितंबर) की कीमतों में गिरावट जारी रही। 10 अगस्त तक राजस्थान में ग्वारसीड का उत्पादन क्षेत्र पिछले वर्ष के 17.9 लाख हेक्टेयर की तुलना में 76% बढ़कर 30 लाख हेक्टेयर हो गया है। ग्वारसीड की कीमतों को 4730 के स्तर पर मजबूत समर्थन मिलने की संभावना है और यदि कीमतें 4730 के स्तर से नीचे टूटती हैं तो 4500 तक लुढ़क सकती है, जबकि ग्वाराम वायदा की कीमतों को 8200 के स्तर पर समर्थन रह सकता है।

घरेलू बाजार में आपूर्ति की कमी के कारण अरंडी वायदा कीमतों में तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। लेकिन तेल की सीमित निर्यात मांग और गुजरात एवं राजस्थान में अरंडी के बढ़ते उत्पादन क्षेत्र से बहुत सीमित रह सकती है। कीमतों को 7650-7700 के पास मजबूत रजिस्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात में अरंडी का उत्पादन क्षेत्र साल-दर-साल 41% बढ़कर 3.05 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है।

### सर्पा

फेडरल रिजर्व के अधिकारियों द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की ओर इशारे के बाद ट्रेजरी यील्ड में तेजी के बावजूद डॉलर में साप्ताहिक स्तर पर गिरावट के कारण सोने की कीमतों लगातार चौथे हफ्ते बढ़ोतरी हुई है। फंडामेंटल के स्तर पर सोने को परस्पर विरोधी स्थितियों को सामना करना पड़ रहा है। एक ओर, कमजोर अमेरिकी डॉलर से कीमतों को मदद मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर यील्ड में वृद्धि हुई है। डॉलर में चार में से तीसरी साप्ताहिक गिरावट हुई है जिससे अन्य मुद्रा धारकों के लिए सोना कम महंगा हो गया। गुरुवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि जुलाई में अमेरिकी उत्पादक कीमतों में अप्रत्याशित रूप से गिरावट हुई है। ये आंकड़े गैसोलीन की कीमतों में गिरावट के कारण जुलाई में उपभोक्ता मूल्य (सीपीआई) के अपरिवाहित रहने के एक दिन बाद आए। अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के साथ, यह लंगभंग तूफान के बाद की शांति की तरह है और इसने कुछ दिनों पहले की अस्थिरता के दौर के बाद करंसीयों और कमोडिटीज का कारोबार कम दायरे हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को फेडरल रिजर्व बैंक की अध्यक्ष मैरी डेली ने कहा कि सितंबर में ब्याज दर में आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी समझ में आती है, और साथ ही कहा है वह बहुत अधिक मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए बड़ी बढ़ोतरी की संभावना के लिए तैयार है। फंड फंड प्यूचर्स ट्रेड्स अब सितंबर में 50 बेसिस प्वाइंट वृद्धि की 61.5% संभावना और 75- बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की 38.5% संभावना व्यक्त कर रहे हैं। बेंचमार्क अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड तीन सप्ताह के उच्च स्तर के पास कारोबार कर रहा है जिससे सोने की मांग में कमी आ सकती है। आने वाले सप्ताह में सोने की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है और यह 51000-53800 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चांदी की कीमतें भी अधिक उतार-चढ़ाव के साथ 56500-60000 के दायरे में कारोबार कर सकती है। कुल मिलाकर रुझान तेजी का है इसलिए गिरावट पर खरीदारी की सलाह है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

आईईए द्वारा इस वर्ष के लिए तेल की मांग में वृद्धि के पूर्वानुमान के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कुछ उपभोक्ता तेल की ओर रुख कर रहे हैं। नेचुरल गैस और बिजली की कीमतें कुछ देशों में नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं जिससे कई देश गैस से तेल की ओर रुख कर रहे हैं। आईईए ने 2022 में तेल की कुल मांग को अपना पूर्वानुमान में 380,000 बैरल/दिन की बढ़ोतरी की है। ओपेक द्वारा इसके विपरीत दृष्टिकोण रखने के बावजूद, इस खबर के कारण कीमतों को मदद मिली। ओपेक ने अप्रैल के बाद से तीसरी बार 2022 में विश्व स्तर पर तेल मांग में वृद्धि के अपने पूर्वानुमान में कटौती की। ओपेक ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि 2022 में तेल की मांग 3.1 मिलियन बैरल प्रति दिन बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले पूर्वानुमान से प्रति दिन 260,000 बैरल कम है। वैश्विक स्तर पर तेल बाजार में मजबूत फंडामेंटल के कारण 2022 की पहली छमाही में कोविड से पहले के स्तर तक रिकवरी जारी रही है लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि और तेल की मांग में नरमी के संकेत से कीमतों पर दबाव पड़ा। आईईए के अनुसार रूस का तेल उत्पादन अगले साल की शुरुआत तक लगभग 20% गिरना तय है क्योंकि यूरोपीय संघ के आयात प्रतिबंध लागू हो गए हैं, 2023 की शुरुआत में करीब दो मिलियन बैरल/दिन आयात बंद हो गए हैं। अमेरिकी सीपीआई आंकड़ों के अनुमान से कमजोर रहने के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित मौद्रिक सख्ती के पुनर्मूल्यांकन की संभावना से कीमतों में पिछले सप्ताह में लगभग 5% की वृद्धि हुई है, जो अप्रैल 2020 के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट के बाद उछाल इस सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतें 7090-7890 के दायरे में कारोबार कर सकती है। दूसरी ओर नेचुरल गैस की कीमतों में दोनों तरफ की हलचल देखी जा सकती है और कीमतें 650-720 के दायरे में कारोबार कर सकती है।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार कर सकती हैं क्योंकि अमेरिकी मुद्रास्फीति के उम्मीद से कमजोर आंकड़ों ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की संभावना को कम कर दिया है, और अधिक विकास और धातुओं की मांग उम्मीदें बढ़ा दी हैं। कम भंडार के कारण बेस मेटल की कीमतों को मदद मिल सकती है। जुलाई में अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों में अर्थशास्त्रियों के 0.2% की बढ़ोतरी के अनुमान की तुलना में वृद्धि नहीं हुई, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर में अपनी ब्याज दर वृद्धि के आकार को कम करने की संभावना बन सकती है। जुलाई में चीन में ऑटो की बिक्री में वृद्धि हुई क्योंकि कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दी गई है लेकिन इस वर्ष के पहले सात महीनों में बिक्री अभी भी साल-दर-साल 2% कम है। लेकिन अभी भी कोविड-19 लॉकडाउन का खतरा कई चीनी शहरों के साथ ही बाजार पर भी मंडरा रहा है, जिससे कोविड मामले की संख्या में बढ़ोतरी को रोकने के लिए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसलिए उच्च स्तर पर मुनाफावसूली से इनकार नहीं किया जा सकता है। तांबे की कीमतें 660-700 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एसएफएफई में तांबे का भंडार 21 जनवरी के बाद से सबसे निचले स्तर पर है जबकि एलएमई में 29 जून के बाद से सबसे निचले स्तर पर है और मई के बाद से 30% कम है। एल्युमीनियम की कीमतें 210-230 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। अगस्त की शुरुआत से अगस्त के अंत तक एल्युमीनियम के भंडार में वृद्धि जारी रह सकती है, जिससे एल्युमीनियम की कीमतों में वृद्धि पर रोक लग सकती है। जिंक की कीमतें 310-345 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। ग्लेनकोर द्वारा अपने यूरोपीय स्मेल्टरों पर मार्जिन में कमी की चेतावनी के बाद जिंक की कीमतों को समर्थन मिल रहा है। ग्लेनकोर के यूरोपीय परिचालन में रिफाईंड जिंक का उत्पादन 2022 के पहले छह महीनों में साल-दर-साल 47,500 टन कम होकर 350,900 टन रह गया। लैंड की कीमतें 178-190 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

## पीएमआई ... “आर्थिक स्वास्थ्य का संकेतक”

पर्चेजिंग मैनेजर सूचकांक (पीएमआई) मैनुफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक रुझानों की प्रचलित दिशा का सूचकांक है। पीएमआई का उद्देश्य कंपनी, विश्लेषकों और निवेशकों को निर्णय लेने के लिए वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।


एक मासिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत का मैनुफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जुलाई में आठ महीनों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो व्यापारिक मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ है। मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैनुफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जून में 53.9 से बढ़कर जुलाई में 56.4 हो गया, जो आठ महीनों में मैनुफैक्चरिंग के स्वास्थ्य में सबसे बेहतर स्थिति को संकेत करता है।

पीएमआई के आंकड़े 0 से 100 तक की संख्या के बीच होते हैं। 50 से ऊपर का पीएमआई पिछले महीने की तुलना में मैनुफैक्चरिंग में बढ़ोतरी का संकेत करता है। 50 से कम पीएमआई मैनुफैक्चरिंग में कमजोरी का संकेत करता है, और 50 किसी परिवर्तन को नहीं दर्शाता है।

जुलाई के दौरान तेज आर्थिक विकास और कमजोर मुद्रास्फीति के कारण भारतीय मैनुफैक्चरिंग उद्योग में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

## चीन और अमेरिका का मैनुफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स

नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (एनबीएस) ने कहा कि चीन का आधिकारिक मैनुफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जुलाई में गिरकर 49.0 पर आ गया, जो जून में 50.2 था, जो 50-पॉइंट मार्क से नीचे है, जो अर्थव्यवस्था में गिरावट की ओर संकेत करता है। तेल, कोयला और धातु गलाने वाले उद्योगों में निरंतर गिरावट जुलाई में मैनुफैक्चरिंग पीएमआई में कमी के मुख्य कारणों में से एक रहा है। नए ऑर्डर और रोजगार सभी में गिरावट के कारण यह स्तर तीन महीने में सबसे कम है। चीनी मैनुफैक्चर कच्चे मालों की लंबी कीमतों से जूझ रहे हैं जिससे लाभ मार्जिन कम हो रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर मंदी की आशाओं के साथ निर्यात को लेकर नरमी बनी हुई है।



स्रोत: रॉयटर एवं एसएमसी रिसर्च

जुलाई में अमेरिकी मैनुफैक्चरिंग गतिविधि में गिरावट जारी रही क्योंकि कम होते ऑर्डर

और बढ़ते भंडार के कारण अधिक से अधिक कारखानों ने उत्पादन करना बंद कर दिया। जारी आंकड़ों के अनुसार, इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाय मैनेजमेंट की फैक्ट्री गतिविधि का इंडेक्स घटकर 52.8 हो गया, जो जून 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर है और जो एक महीने पहले 53 था। नए ऑर्डर भी लगातार दूसरे महीने कम बना रहा। आंकड़ों से व्यापार के लिए कमजोर मांग का पता चलता है क्योंकि अर्थव्यवस्था तेजी दर्ज करने के लिए कोशिश कर रही है।

आईएसएम और एसएंडपी ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग आंकड़े दुनिया के अन्य हिस्सों में सामान्य मंदी के अनुरूप हैं। पिछले महीने यूरोपीय फैक्ट्री की गतिविधि में गिरावट हुई और एशिया में मैनुफैक्चरिंग उत्पादन कमजोर होता रहा। यूरो क्षेत्र के चार सबसे बड़े सदस्यों के पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ने आर्थिक मंदी का संकेत दिया है।

कुल मिलाकर, जुलाई के लिए कम पीएमआई आंकड़े वैश्विक अर्थव्यवस्था में चिंताजनक गिरावट की ओर इशारा करते हैं। मैनुफैक्चरिंग रुक गया है और महामारी से सेवा क्षेत्र में उछाल के बाद फिर से गिरावट होने लगी है, क्योंकि आजीविका की बढ़ती लागत, उच्च ब्याज दरों और आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर बढ़ती निराशा से बढ़ती मांग की भरपायी होने लगी है।



## एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेवा और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेवा (रिसर्च एनालिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेवा द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवम् उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।